

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2014 (वैसाख 13, 1936)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2014 (VAISAKHA 13, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली — 110003, दिनांक 31 मार्च, 2014

सं. ओ.दो. 6761/2014—कार्मिक.डी.ए.-4.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री अजन आर. नायर, उप कमाण्डेन्ट (इरला-6761), ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बंगलौर (कर्नाटक) ने दिनांक 20/03/2014 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 20/03/2014 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मूल चन्द पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/123—सं प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-VIII/3884 दिनांक 31.03.2014 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1445 दिनांक 31.03.2014 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-2 (रु. 9300—34800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
01.	रमाकान्त साहू	01.04.2014 पूर्वान्ह
02.	श्रीमती ज्योत्स्ना धल	01.04.2014 पूर्वान्ह

भगवान नायक
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 7 अप्रैल 2014

सं. ओई (ई एण्ड सी)/ईआईबी/पी/

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री मैथ्यू एन. वर्गीस	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.3.2014 अपराह्न (अधिवर्षिता)

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली — 110 001, दिनांक 25 मार्च, 2014

सं. ए.—19011/97/90/प्रशा-06/प्रशा.—II—महामहिम राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह-क) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री एस0 सी0 मंडल को सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उपमहानिदेशक (गु0 आ0) के पद पर पी0बी0-4 रु.37,400—67,000/- (+) ग्रेड पे रु.10,000/- के वेतनमान में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण की तारीख अर्थात् दिनांक 20-12-2013 (पू0) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के0 के0 सक्सैना
उप निदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी बोर्ड

मुंबई 400 094, दिनांक 31 मार्च, 2014

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/खण्ड-V/2012/1720----भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (तालचेर/ मणुगुरु) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर एवं दर्शाई गई तारीख के पूर्वाहन से उसी संयंत्र में आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	कोला विरेन्द्र नाद	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरु	01.07.2012
2.	प्रशांत कुमार सेठी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तालचेर	09.07.2012

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतन बैंड:

पद	वेतन बैंड	वेतन ग्रेड
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	पीबी(3) 15600-39100	7600
वैज्ञानिक अधिकारी/डी	पीबी(3) 15600-39100	6600

के.एस. पिल्लै

प्रशासन अधिकारी-III

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400020, दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. एफ. 48—एडी(एटी)/2014—श्री ओ पी केशरी, सहायक पंजीकार, आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ पीठे, चंडीगढ़ सेवा—निवर्तन की आयु प्राप्त कर दिनांक 31 मार्च, 2013 के अपराहन में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

एच. एल. कारवा
अध्यक्ष

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़
कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. टीएस/एसएम/560/84—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 3 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों का इसके प्रतिकूल कोई कारण दर्शित नहीं किया गया तो इन कम्पनियों का नाम कम्पनियों के रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और ये कम्पनियां विधित्त कर दी जाएगी।

क.स.	कम्पनी न.	कम्पनियों का नाम
1	32138	अमृत टाऊनविला प्राइवेट लिमिटेड
2	28750	बीपीएम इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	31092	बजाज न्यूट्रा डायरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
4	30909	डीएमडब्ल्यू टेक्नोलिजीस प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चंडीगढ़ दिनांक 11 अप्रैल 2014

सं. आर ओ सी/560/5/2000—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 द्व के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

सीरियल नंबर	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	2	3
1	16899	स्काईवेज हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
2	16902	स्पैशलटी सट्रीप्स प्राइवेट लिमिटेड
3	16898	जे.एच कैपिटल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
4	16905	सटार रैफरीकेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
5	16907	डी.एन फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
6	16922	मलसीयां फाईनांस प्राइवेट लिमिटेड
7	16928	के एण्ड एन गारमैन्ट मैनुफैक्चरज प्राइवेट लिमिटेड
8	16932	के.टी.एन बिल्डर्ज एण्ड डिवलपर्ज प्राइवेट लिमिटेड
9	16934	बी आर बाई कैमिकलस प्राइवेट लिमिटेड
10	16936	बैस्ट रब्वर्ज प्राइवेट लिमिटेड
11	16942	धूरी कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
12	16945	पेस मेनेजमैन्ट एण्ड कन्सलटैन्सी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
13	16948	आत्म बिल्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड
14	16957	आर एम टी मशीन्ज प्राइवेट लिमिटेड
15	16962	कनसैण्ट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	16963	कैशव सर्जिकल काटन प्राइवेट लिमिटेड
17	16969	अमृत औरगैनिक फरटीलाइजरस प्राइवेट लिमिटेड
18	16961	सूसी इन्वैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	16770	गनपती सकयोरटीज प्राइवेट लिमिटेड
20	16974	क्वान्टम फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
21	16982	वशुलिगां सिन्थैटिक्स लिमिटेड
22	16987	मलेरकोटला एगो फ्युलस प्राइवेट लिमिटेड
23	16994	ट्रेडलिक एयरफ्रेट प्राइवेट लिमिटेड
24	17002	गुरुकुदरत फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
25	17000	मैडीगाई औरगैनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
26	17024	एसजे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	17027	कोलिन्स रैमडीसज (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
28	17029	मौरनिंग पोस्ट पबलिशिंग लिमिटेड
29	17038	नीलगगन फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
30	17045	न्यू ऐज हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
31	17046	नावी हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
32	17059	अनमोल कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
33	03327	बलूम फाइनांस एण्ड चिट फंड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
34	17075	फिकुस कैपिटल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
35	17077	जेआरजी फिनबैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
36	17086	ठाकुर एगजिम कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
37	17096	शिव फन रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	17097	सिधार्थ सौप एण्ड डीटरजनट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	17100	भीम आटो कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
40	17106	वधवां कार्ड बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड
41	17117	रोबीन मशीनरी लिंकरज प्राइवेट लिमिटेड
42	17123	यशु फाइनांस एण्ड लिजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
43	17133	बारोन फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
44	17145	धामीजा फिनलिज प्राइवेट लिमिटेड
45	17154	सत सहिब कास्टिंगज प्राइवेट लिमिटेड
46	17159	सुखमनी रेजिन एण्ड कैमिकल्ज प्राइवेट लिमिटेड
47	003347	गुलनार फाइनांसरज एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड
48	17167	अनुभव ट्रांसफारमर्ज एण्ड सविचिज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
49	17168	नार्दन ग्रीन हरवेसट प्राइवेट लिमिटेड
50	17169	वारेच शीडज प्राइवेट लिमिटेड
51	17176	हरियाणा गैसिस लिमिटेड
52	17178	डव सेनीटीसन प्राइवेट लिमिटेड
53	17182	बसंत सटील अपलइनेसिज प्राइवेट लिमिटेड
54	17186	बी.एस इलैक्ट्रोमेच इनजिनीरयंग प्राइवेट लिमिटेड
55	17188	नागरमल फाइनासल सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
56	17191	एएनजी मेटलस प्राइवेट लिमिटेड
57	17194	करुना एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
58	17204	विविध कासटीगस प्राइवेट लिमिटेड
59	17207	पधानिया फाइनास प्राइवेट लिमिटेड
60	17216	एम एम हायर परचेजज प्राइवेट लिमिटेड
61	17223	एच आर हायर परचेजज प्राइवेट लिमिटेड
62	17230	पी आर हऊसिंग एण्ड डवलपरज प्राइवेट लिमिटेड
63	17237	आर के डी एक्सपोर्टर्ज प्राइवेट लिमिटेड
64	17239	एच एम टरेडरज प्राइवेट लिमिटेड
65	17233	इनटीग्रेटड एडवाईजरज प्राइवेट लिमिटेड
66	17243	एम एस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
67	17246	महन्तं फरटीलइजरज प्राइवेट लिमिटेड
68	17248	श्री बन्के बिहारी एगो मिल्ज प्राइवेट लिमिटेड
69	17242	मोहाली टूल प्राइवेट लिमिटेड
70	17254	सुपरटैच सविचगियर मार्किंग प्राइवेट लिमिटेड
71	17265	ए. एम कैमीकलज प्राइवेट लिमिटेड
72	17253	एम सी एस टैलीकाम प्राइवेट लिमिटेड
73	17270	गांधी फरनीचरज प्राइवेट लिमिटेड
74	17276	सचदेवा फिनवेसट प्राइवेट लिमिटेड
75	17277	दलजीत बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
76	17280	ए एच परीजम पैक लिमिटेड
77	17283	जे वी जी टैक्सट एण्ड सपीनिंग मिल्स लिमिटेड
78	17295	फरनटीयर वर्डवाइड इनडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
79	17284	सिबरा एजुकेसनल कारीर फऊडैसन प्राइवेट लिमिटेड
80	17285	सिबरा ट्रेवलज प्राइवेट लिमिटेड
81	17302	अमन हौजरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
82	17305	परोग्रेसीव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
83	17312	सीमा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
84	17299	रूबीनी पेपरज लिमिटेड

1	2	3
85	17300	पार्क ओवरसीज लिमिटेड
86	17319	माकसन इनवैस्टमिन्टस प्राइवेट लिमिटेड
87	17326	पलसर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
88	17327	लक्की स्टार सपीनरज लिमिटेड
89	17329	शिटी इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
90	17331	अगरानी कौटन ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
91	17332	मालवा टेक्सटाइलज प्राइवेट लिमिटेड
92	17346	बोम्बे मिक्स रिकार्डिंग स्टुडियो प्राइवेट लिमिटेड
93	17351	धालीवाल एग्री इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
94	17356	वी बी कम्प्यूटरज इन्टरप्राइजरज प्राइवेट लिमिटेड
95	17357	सिटको रोडलाइनज प्राइवेट लिमिटेड
96	17358	जंडियला विलडर्ज प्राइवेट लिमिटेड
97	17371	स्नोवाइट टेक्सटाइलज प्राइवेट लिमिटेड
98	17375	बाबा श्री चन्द सहिब राईस मिल्सज प्राइवेट लिमिटेड
99	17382	कमेलोट ईमपोर्टज प्राइवेट लिमिटेड
100	17384	धनधारी एलाऐज प्राइवेट लिमिटेड
101	17388	जयदका एक्सपोर्टज लिमिटेड
102	17397	शी आर फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
103	17394	सुखसुर एजुकेशनल एण्ड मेनजमिन्ट सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड
104	17403	नीरज हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
105	17404	पाश हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
106	17405	जहानगिराबाद हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड
107	17409	रोयल कन्सुमर सर्विसज लिमिटेड
108	17410	मीनु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
109	17406	पुगमार्क्स इमप्रेसनज प्राइवेट लिमिटेड
110	17414	शेखर इनरप्राइजरज इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड
111	17416	इनदर केपिटल सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड
112	17422	रायल लेवोरटरीज प्राइवेट लिमिटेड
113	17423	जी पी एस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
114	17424	के एस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
115	17425	जी एस फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
116	17426	आई जी एस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
117	17427	आई एस फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
118	17445	हिलसाईड डिसटलरीज प्राइवेट लिमिटेड
119	17442	हाफटोन ईमप्रेसनज प्राइवेट लिमिटेड
120	17451	असथैटिकज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
121	17452	टैचवुड टूलज प्राइवेट लिमिटेड
122	17457	बी एम फ्लोर मिलज प्राइवेट लिमिटेड
123	17469	काला कोल सपलायरज प्राइवेट लिमिटेड
124	17477	साची टूलज एण्ड फोरजिंगज प्राइवेट लिमिटेड
125	17484	आलावलपूर डिपॉजिट एण्ड आडवांसिज प्राइवेट लिमिटेड
126	17481	पिनवुड इमपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
127	17490	गुरु अमर दास मिल्क फूडज प्राइवेट लिमिटेड
128	17492	सुरेश प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
129	17501	साई प्रकाश एगो प्राइवेट लिमिटेड
130	17511	हालीफेक्स इंटरनैसनल लिमिटेड
131	17509	यू सी कार्बन प्राइवेट लिमिटेड
132	17525	ईन्डो पोलीफैब लिमिटेड
133	17527	टी.एम. स्क्योरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
134	17533	जे बी गारमैंट्स प्राइवेट लिमिटेड
135	17534	चीफ लिजिंग एंड इनवैस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
136	17538	गनेश गैसिस प्राइवेट लिमिटेड
137	17549	शिवालिक सोना ज्वैल्स लिमिटेड
138	17550	हरगोबिंद फाइनेशियलस एंड इनवैस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
139	17560	रिचर्च स्पाईस ओयलस लिमिटेड
140	17562	पी अग्रवाल ट्रेडरस प्राइवेट लिमिटेड
141	17571	जे आर डी मशीनस प्राइवेट लिमिटेड
142	17572	पुनिया पेपरस प्राइवेट लिमिटेड
143	17576	मैक मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
144	17578	अचिंट फाईनेंस एंड लिजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
145	17584	आरसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
146	17588	दियोल डायरी फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
147	17588	औलख डायरी फार्मस प्राइवेट लिमिटेड
148	17591	डी एस स्टील एंटरप्राइस प्राइवेट लिमिटेड
149	17592	शम्मी होटल एंड रैस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
150	17586	लाभ टूरस ट्रेवलस एंड फाइनेशियरस प्राइवेट लिमिटेड
151	17598	सवेरा टैकस्टाइलस प्राइवेट लिमिटेड
152	17599	सुपर एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
153	17602	जूपीटर ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
154	17603	शुभ लाभ एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
155	17605	शुभ लाभ फाइनेशियलस सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड
156	17606	सागर कैपिटल सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
157	17611	हिकोरी होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड
158	17617	ओक्सफोर्ड निटवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
159	17628	बदवाल फाइनेंस एंड इनवैस्टमेंट लिमिटेड
160	17629	एच एस के फाइनेंस लिमिटेड
161	17635	ए एम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
162	17637	भगवती ओवरसिस प्राइवेट लिमिटेड
163	17640	आलटो कनस्ट्रक्शनस इंडिया लिमिटेड
164	17646	वैस्ट इंडिया एगो मिलस प्राइवेट लिमिटेड
165	17647	पननी स्टीलस लिमिटेड
166	17644	ए एम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
167	17649	संधू क्रेडिटस प्राइवेट लिमिटेड
168	17652	एवरग्रीन पेपरस प्राइवेट लिमिटेड
169	17653	श्री तीर्थ कनस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
170	17658	ऋषि कैपिटल सर्विसज प्राइवेट लिमिटेड
171	17655	होरीजोन कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
172	17662	एस आर डी फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड
173	17663	अंबिका लायसन एंड कंसलटैंसी हाउस प्राइवेट लिमिटेड
174	17667	डाटा मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
175	17672	फाईव स्टार इमीग्रेशन कंसलटैंटस प्राइवेट लिमिटेड
176	17673	एपीएस कम्नयूकेशन प्राइवेट लिमिटेड
177	17686	अमृतसर फिनलीस प्राइवेट लिमिटेड
178	17692	अमृतसर कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
179	17688	टूर यारनस लिमिटेड
180	17695	एम.एफ. बोर्डस एंड सक्योरिटीस लिमिटेड
181	17693	सुरभि कैसटस प्राइवेट लिमिटेड
182	17698	जसू एक्स सोलजरस इंडस्ट्रीयल सक्योरिटी सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
183	17701	बेनस सुपरटोन म्यूसिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
184	17709	एम.एफ फाइनेंसशियलस सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
185	17721	वीपीएम फिनवैस्ट लिमिटेड
186	17723	औशो कनवेयरस प्राइवेट लिमिटेड
187	17730	चैरिसमैटिक पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड
188	17738	के.जे.मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
189	17731	ओ बाय फूडस प्राइवेट लिमिटेड
190	17734	अमृत सोलर प्राइवेट लिमिटेड
191	17736	इंडस एगो फार्मस लिमिटेड
192	17745	वाइ बी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
193	17746	ए पी जी फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
194	17751	जेकेए फाईनैशियल सर्विस लिमिटेड
195	17758	अकरोन फाईनैशियल एंड मार्किटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
196	17771	रिपल एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
197	17768	डैलटा सिस्टमस इंजीनियरिंग एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
198	17774	प्रशांत फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
199	17776	के के कनडक्टरस प्राइवेट लिमिटेड
200	17779	गुफी ग्रोथ फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
201	17782	साहिबा फाईनैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
202	17786	यूले फैशन प्राइवेट लिमिटेड
203	17795	साहिब फाईबरस प्राइवेट लिमिटेड
204	17797	बाबी ब्रदरस इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
205	17798	बैंडलास फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
206	17800	बैल डिपोजिट एंड एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड
207	17791	बाबा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
208	17804	मेडूला कम्प्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
209	17808	ग्रीन लाइन इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
210	17809	शाह फाईबरस प्राइवेट लिमिटेड
211	17815	राणा कुंज फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
212	17818	प्रीति स्टील बाल्स प्राइवेट लिमिटेड
213	17810	नाईट औरगैनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
214	17829	गो किवक इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
215	17832	दशमेश एलोयस प्राइवेट लिमिटेड
216	17833	राणा कुंज फिनलीस प्राइवेट लिमिटेड
217	17831	लोरकैन मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
218	17835	प्रीमैकैस कैमिकलस प्राइवेट लिमिटेड
219	17841	सिंगला मेदी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
220	17845	जमना भंडारी फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
221	17849	रूपाली फिनलीस प्राइवेट लिमिटेड
222	17850	जतिन फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
223	17852	रोबोट कम्प्यूटर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
224	17837	डिवाइन गारमेंटस प्राइवेट लिमिटेड
225	17857	सारल फाईनैस एंड लिसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
226	17868	सुखना एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
227	17867	जैगसनस ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
228	17874	यूनीवर्थ स्पीनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
229	17882	गरछा एंड गरछा फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
230	17883	अमर हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
231	17877	खुराना इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
232	17893	रायलस्टार फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड
233	17895	जगोता फाईबर्स प्राइवेट लिमिटेड
234	17898	विजिन पेपर लिमिटेड
235	17903	राना एक्सिम लिमिटेड
236	17901	सुर संगम कैसट्स प्राइवेट लिमिटेड
237	17096	सुविधा मैडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
238	17910	एल्फा फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
239	17911	जी एगो कैमिकल्स लिमिटेड
240	17920	रूद्रा फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
241	17923	अजंता एडवटाईसिंग सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
242	17943	यंगमैन लिजिंग एंड फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
243	17931	इंटरनैशनल होर्टीकल्चर डिवैलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
244	17950	मून फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
245	17947	राना मोहेंदरा डिस्ट्रीलरीस लिमिटेड
246	17948	सुनीत फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
247	17958	पटियाला फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
248	17972	बबलस कारलाईन प्राइवेट लिमिटेड
249	17978	नरूला रेस्टोरेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
250	17974	गोल्डन बिल्डिंग मैटेरियल्स लिमिटेड
251	17975	गोल्डन कोनकास्ट लिमिटेड
252	17988	तेजपाल एंड सन्स फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
253	17980	एविड इलैक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
254	17996	नेचर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
255	17999	पूनम डिटरजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
256	18000	अलावलपुर पौर हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
257	18001	कराउन पौली फैबरिक्स लिमिटेड
258	18003	लयूसिड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
259	18010	जीवन ज्योति लैडर्स प्राइवेट लिमिटेड
260	18015	मोहाली प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
261	18016	निघा फाईनैस हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
262	18020	एस पी जिपस प्राइवेट लिमिटेड
263	18024	बोम्बे ओवरसिस कारगो कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
264	18027	रयूम इनवैस्टमेंट्स एंड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
265	18038	डीपीजी शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
266	18042	सक्योरेक्स फाईनैस एंड इनवैस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
267	18056	जागीर हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
268	18057	नेह्रान फाईनैस एंड लिजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
269	18069	अवतार मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
270	18051	केएनबी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
271	18088	आई.बी फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
272	18090	भगवान माया फीड्स एंड फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
273	18103	जपरा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
274	18115	गुगनी पोलट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
275	18128	हरक्रशन फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
276	18144	जीरखपुर फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
277	18156	एम. के हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
278	18158	लाल रतन कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
279	18167	ओरियंटल फिनवैस्ट लिमिटेड
280	18197	आर बी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
281	18199	कोहीनूर लिजिंग एंड इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
282	18213	पारस फिनमैन प्राइवेट लिमिटेड
283	18221	अमरसन्स वूल कोम्बरस लिमिटेड
284	18229	अल्टीमम फाईनैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
285	18231	एमपीआर हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
286	18233	एरोमेरिन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
287	18257	जीटीपी फाईनैशियल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
288	18260	मोनार्क स्पोर्टिंग गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
289	18261	आर.बी.जे फाईनैस एंड इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
290	18254	विशवा एग्रो रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
291	18247	शुभ करमन मोटर फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
292	18248	दुरखशान ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
293	18267	एस.आर.एफ हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
294	18263	सोनम कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
295	18277	साई निट एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड
296	18282	पटियाला हाउसिंग एंड फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
297	18287	घासीटपुरा फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
298	18293	वीकेएस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
299	18296	पावर हायर परचेज़ प्राइवेट लिमिटेड
300	18309	एन.जे.कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
301	18310	प्रेसटाइज हायर परचेस एंड फाईनैशियर्स प्राइवेट लिमिटेड
302	18313	आकांकशा लिजींग एंड सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
303	18326	जे.डब्ल्यू.एक्सपोर्ट्स एंड मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
304	18327	जीएचएम एडवर्टाईसिंग एंड लिजींग प्राइवेट लिमिटेड
305	18332	मानसी फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
306	18345	यमुना फाईनैशियल्स सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
307	18365	बलवंत पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
308	18366	क्रशना टीवी आर्ट क्रीएशन्स लिमिटेड
309	18378	अपूर्व फाईनैस एंड इनवैस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
310	18389	सैंगर फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
311	18392	स्पूतनिक कम्प्यूटर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
312	18395	जगदीप फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
313	18397	बिंदरा हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
314	18398	मेघा टैक्स्टाईल्स प्राइवेट लिमिटेड
315	18399	यूरो कैम टैक्नोलॉजीस लिमिटेड
316	16670	सक्योर कैपिटल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
317	18420	एमीनैस हाउसिंग एंड फिडनैस प्राइवेट लिमिटेड
318	18428	किसान फ्लोरीटैक लिमिटेड
319	18426	ओरीएंटल टैलिकाम प्राइवेट लिमिटेड
320	18432	फागू पोलिटरीस प्राइवेट लिमिटेड
321	18451	प्रकाश बेकरस प्राइवेट लिमिटेड
322	18459	एमसन्स हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
323	18462	मैसरोक सक्योरिटीस इक्यूपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
324	18470	सरूप प्रोजेक्ट एंड इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
325	18472	एचडीएच फाईनैस एंड इनवैस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
326	18471	ओनलाईन वर्डहोटल्स लिमिटेड
327	18490	कालगिधर रियल इस्टेट्स एंड हाउसिंग डिवेलमेंट प्राइवेट लिमिटेड
328	18493	लक्ष्मी स्ट्रीप्स एंड फाईनैस प्राइवेट लिमिटेड
329	18494	एन आर इंटरनैशनल पेट्रोलियम लिमिटेड
330	18503	हरजास फाईनैशियर्स प्राइवेट लिमिटेड
331	18499	क्राउन कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड
332	18541	ओरीएंटल एग्रो प्लानटेशन एंड ड्रग्स इंडिया लिमिटेड
333	18553	ख्याति कैपिटल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
334	18554	पुशपल फाईनैस एंड इनवैस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
335	18572	ईसमा इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
336	18575	गोबिंद कानकास्ट लिमिटेड

1	2	3
337	18576	आइडर केबल्स इंडिया लिमिटेड
338	18583	सिद्धार्त फिनमैन प्राइवेट लिमिटेड
339	18585	ओनलाईन फिनकैप्स लिमिटेड
340	18592	जीवन ज्योति फिनवैस्ट लिमिटेड
341	18599	बादशाह दरवेश हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
342	18608	पी एच सिक्योरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
343	18610	नीलकंठ डिपोसिट्स एंड एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड
344	18615	हर्ष प्रोसैसर्स प्राइवेट लिमिटेड
345	18613	रेहल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
346	18623	गुरुक्रपा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
347	18635	एच डी प्रोपरटीस प्राइवेट लिमिटेड
348	18636	जोहल ब्रदर हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
349	18644	हिमसन एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड
350	18649	सुरखाभ एंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
351	18661	कैपसन्स इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
352	18674	आकर्षक फिनवैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
353	18687	सवेरा हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
354	18691	जंडियाली एग्री मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
355	18699	कैलिक्स फर्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
356	18702	एस.एफ. फार्मैस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
357	18711	बी जी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
358	18718	बीबीएस लिजिंग एंड डिपोसिट्स प्राइवेट लिमिटेड
359	18739	लीड हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
360	18740	खासीरिया हायर परचेस प्राइवेट लिमिटेड
361	18743	आनंदपुर साहिब इस्टेट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
362	18744	लीड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
363	18749	चंडीगढ़ बिल्डीकोन प्राइवेट लिमिटेड
364	18750	जमींदारा बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
365	18751	मंगला फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
366	18753	रायल रिजेंसी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
367	18759	लौंगोवाल कोल्ड स्टोर्ज प्राइवेट लिमिटेड
368	18764	ए.आई एम्पलाईमेंट परमोटर्ज प्राइवेट लिमिटेड
369	18768	जिनिश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
370	18773	गरेवाल पेट्रोलियम्स प्राइवेट लिमिटेड
371	18775	लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
372	18804	दिसा मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
373	18790	हरगुरराज कनस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
374	18797	जिया कनस्ट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
375	18798	जगद प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
376	18799	ईर्या फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
377	18800	जयतरा प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
378	18801	जयगाजा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
379	18803	जिया प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
380	18805	दिसती एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
381	18807	गांधा फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
382	18796	जाला फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
383	18811	गुरु नानक वायर एण्ड वैल्ड प्राइवेट लिमिटेड
384	18823	बीटीएल फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
385	18855	मोनक सील इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
386	18882	एसजेएस राइस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
387	18884	हरमन फैशनरस प्राइवेट लिमिटेड
388	18889	इमपेक्ट फूडस प्राइवेट लिमिटेड
389	18887	मास्टरज इन्फरमेशन सलुशन प्राइवेट लिमिटेड
390	18896	जी एण्ड जी मेनजमेन्ट सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
391	18909	जगराल एग्रीकलचर फार्मींग प्राइवेट लिमिटेड
392	18917	कलपा कनसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
393	18918	लोका एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
394	18919	गोमन मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
395	18920	दरवी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
396	18921	हर्षा कनसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
397	18922	कन्या प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
398	18923	दामा कनसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
399	18925	ईला सक्थरटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
400	18927	ईनान फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
401	18928	कनसा कनसट्रक्शनस प्राइवेट लिमिटेड
402	18929	दामया प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड
403	18930	कापी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
404	18931	दया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
405	18932	हारा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
406	18933	काबेरी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
407	18934	एकेला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
408	18935	माही एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
409	18936	गाजा बिल्डर्ज प्राइवेट लिमिटेड
410	18939	गुंजन फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
411	18940	कामा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
412	25328	पोअइट वैब सलुशनज प्राइवेट लिमिटेड
413	18942	एना फिनकेप प्राइवेट लिमिटेड
414	29640	हिमशिखा डिवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
415	18944	महादेव मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड
416	18945	उजाला फिनलिज प्राइवेट लिमिटेड
417	18946	सनसेट कनसट्रक्शंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

राज सिंह
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. ज्योति स्वरूप कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड U22110GA1990PTC001079 के विषय में

पणजी – 403001, दिनांक 16 अप्रैल 2014

आपके आवेदन (फार्म एफ.टी.ई) दिनांक 28/02/2014 एस.आर.एन B97360911 के संदर्भ में—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. ज्योति स्वरूप कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. बधरिया कंसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड U45201GA2004PTC003755 के विषय में

पणजी – 403001, दिनांक 16 अप्रैल 2014

आपके आवेदन (फार्म एफ.टी.ई) दिनांक 16/09/2013 एस.आर.एन B84530526 के संदर्भ में—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. बधरिया कंसट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. डेल्टार वॉटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड U92410GA2011PTC006568 के विषय में

पणजी – 403001, दिनांक 17 अप्रैल 2014

आपके आवेदन (फार्म एफ.टी.ई) दिनांक 25/02/2014 एस.आर.एन B97005250 के संदर्भ में—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. डेल्टार वॉटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कंपनी अधिनियम, 1956 और मै. सालेलकर रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड U70100GA2012PTC007002 के विषय में
पणजी - 403001, दिनांक 17 अप्रैल 2014

आपके आवेदन (फार्म एफ.टी.ई) दिनांक 10/02/2014 एस.आर.एन B95784583 के संदर्भ में—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. सालेलकर रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 15 अप्रैल 2014

सं. ल.सी/560(5) एफटीई - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं:-

Sl. No.	CIN NO.	कंपनी नाम
1	2	3
1	U60200८A1997PTC021591	तंवर रॉडलिनेस प्राइवेट लिमिटेड
2	U52100८A2011PTC058767	राईट शोपपेर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	U55101८A2008PTC046030	रिसर्जेंट हॉस्पिटैलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	U72200८A1999PTC026009	आई बी एस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5	U92130८A2009PLC049620	रेस इंडिया कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
6	U74140८A2004PTC035297	बिग एप्पल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200८A2012PTC064475	अपरोक्ष सॉफ्टवेयर सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	U28939८A1983PTC005691	अल्फा दिए-कास्ट प्राइवेट लिमिटेड
9	U74999८A2012PTC066633	औक्टीफेर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U74999८A2008PTC047025	फौ हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	U51909८A2008PTC045410	पोकाक रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	U29297८A2001PTC028745	फार्माक्यो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
13	U74990८A2011PTC057456	आफ्रीस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
14	U29253८A2010PTC056427	सावना एंगग & मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	U85110८A2012PTC065322	विरिच हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड
16	U29222८A1981PTC004412	जेबी एलेक्टॉड्स एंड एकुइपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U63040८A2007PTC044019	नून्ज टूर्स & ट्रेवल्स बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड
18	U85110८A2011PTC057517	ऑरेंज प्लस हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
19	U74140८A2010PTC054407	ऋए३ क्यूब मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	U18101८A2003PTC031807	अपैरल स्पेशलिटीएस एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
21	U74900८A2010PTC052407	टाइमलिक वर्कफोर्स सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
22	U45205८A2011PTC059430	मैग्नम कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	U72200८A2007PTC041570	अडॉप्टिक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
24	U63031८A2012PTC062818	युवराज हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
25	U51900८A2010PTC054187	सामझु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U93090८A2006PTC039745	रिज़ोहम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
27	U74140८A2006PTC040422	ज्ञानत कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
28	U72400८A2011PTC058159	वर्चुअल डिजैनिंग वेरिफिकेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U74130८A2008PTC045712	ऑटोमैटिक्स अनलिटिक सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड
30	U15423८A1997PTC022779	टी.ग. यूटिलिटीज एंड सेर्विसेस मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
31	U70101८A1997PTC022773	टी.ग. सर्विस्ड अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U63023८A1997PTC022781	टी.ग. प्रोफेशनल एंड बिज़नेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
33	U40103८A1997PTC022782	टी.ग. पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
34	U80101८A1997PTC022774	टी.ग. इंटरनेशनल स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
35	U55101८A1997PTC022784	टी ग इंटरनेशनल कंट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड
36	U45202८A1997PTC022783	टी.ग. कॉर्पोरेट ऑफिस काम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U70101८A1997PTC022780	टी.ग. कमर्शियल टाउन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
38	U01400८A1997PTC022777	अन्नदान सेफ फार्मिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
39	U72900८A2012PLC063854	सितगुस इनफार्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
40	U17291८A2006PTC039937	यूनिटेक-इंडिया अपैरल प्राइवेट लिमिटेड
41	U05190८A1989PTC009780	क्लिफ्टन गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U74900८A2009PTC049176	कुअलेक्स क्वालिटी कण्ट्रोल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
43	U72100८A2008PTC045925	इनफ्लो नॉलेज सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
44	U63040८A2007PTC043819	त्रिप्रोयल.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
45	U60232८A2010PTC056408	श्री केआरसी रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
46	U74990८A2009PTC050352	हनुमंथनगर केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
47	U72200८A2011PTC059027	क्लासएक्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U52590८A2012PTC064234	इनोवेटिव एक्सपिरिएन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U24100८A2010PTC052997	नोवासंग लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
50	U45202८A2005PTC037135	वाइल्ड लैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
51	U74140८A1998PTC023416	टस्कन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
52	U92410८A2011PTC058504	लैंडमार्क फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड
53	U72900८A2000PTC026186	सिम्फोनी नेट प्राइवेट लिमिटेड
54	U29200८A2009PTC050270	ओटो हॉस्टेटर मोल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
55	U51900८A2011PTC056696	यूनाइटेड ग्लोबल मीनिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
56	U40107८A2010PTC053614	प्रगति हाइड्रो एनर्जी सोलुशंस प्राइवेट लिमिटेड

सत्यजीत रौल
अस्ट. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
कर्नाटक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi- 110003, the 31st March 2014

No. O.II.6761/2014-DA-4-Pers--Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government service by the competent authority, Shri Ajan R. Nair, Deputy Commandant (IRLA-6761) of GC Bangalore (Karnataka), CRPF has relinquished his post on 20/03/2014(FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 20/03/2014(FN).

M.C. PANWAR
DIG(Pers) Dte

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 11th April 2014

No. Admn. (G&SSA)/17-2(AO)/Vol. VIII/123--In pursuance of OOC No. 1445 dated 31.03.2014 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.VIII /3884 dated 31.03.2014 the following Asst. Audit Officers on promotion have assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pay Band - 2 (Rs. 9300 - 34800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from the dates as indicated against them.

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
01.	Ramakanta Sahoo	01.04.2014 FN
02.	Ms. Jyostna Dhal	01.04.2014 FN

BHAGABAN NAYAK
Sr. Audit Officer/ Admn.

OFFICE OF THE PR ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA

Thiruvananthapuram, the 7th April 2014

No. OE(E&C)/EIV/P/

Name	Designation	Date of retirement
Sri. Mathew N. Varughese	Senior Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.03.2014 AN (Superannuation)

K. SHANKARAN
Deputy Accountant General (Admn.)

DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi – 110 001, the 25th March 2014

No. A-19011/97/90/A-6/A-II--The President is pleased to appoint Sh. S.C. Mondal, an officer of Junior Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Senior Administrative Grade of the service as Deputy Director General (QA) in Pay Band PB-4 Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- from the date of assumption of charge i.e. 20.12.2013 (F.N.).

K. K. SAXENA
Deputy Director (Admn.)
for Directorate General of Supplies & Disposal

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
HEAVY WATER BOARD

Mumbai – 400 094, 31st March 2014

No. HWB/R/4(15)/Vol-V/2012/1720--The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Plant (Talcher/Manuguru) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Plant in a temporary capacity until further orders. The Pay Band and Grade pay of the posts are also indicated below:

Sr. No.	NAME S/SHRI	PRESENT GRADE	PROMOTED TO GRADE	HWP	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	KOLA VEERENDRA NADH	SO/D	SO/E	MANUGURU	01.07.2012
2.	PRASHANT KUMAR SETHI	SO/C	SO/D	TALCHER	09.07.2012

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Pay Bands:

Post	Pay Band	Grade Pay
Scientific Officer/E	PB(3) 15600-39100	7600
Scientific Officer/D	PB(3) 15600-39100	6600

K. S. PILLAI
Administrative Officer -III

INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 10th April 2014

No. F. 48-Ad(AT)/2014—Shri O. P. Keshri, Assistant Registrar, Income Tax Appellate Tribunal, Chandigarh, Benches, Chandigarh retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st March, 2014.

H. L. KARWA
President

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/O REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and under Section 560 and of the following Companies:

Chandigarh, the 11th April 2014

No. TS/SM/560/84-- Notice is hereby given pursuant to sub-section 3 of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

S.No.	Company No.	Name of the Company
1.	32138	Amrit Townvilla Private Limited
2.	28750	BPM Impex Private Limited
3.	31092	Bajaj Nutra Dairy Products Limited
4.	30909	DMW Technologies Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies:
Chandigarh, the 11th April 2014

No. ROC/560(5) FTE/2013-- Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:-

S.No.	Company No	Name of the Company
1	2	3
1	U65921PB1995PTC016899	SKYWAYS HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
2	U27104CH1995PTC016902	SPECIALITY STRIPS PRIVATE LIMITED
3	U67120PB1995PTC016898	J. H. CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
4	U26921PB1995PTC016905	STAR REFRECTORIES PRIVATE LIMITED
5	U65921PB1995PTC016907	D.N.FINVEST PRIVATE LIMITED
6	U65921PB1995PTC016922	MALSIA FINANCE PRIVATE LIMITED
7	U18101PB1995PTC016928	K AND N GARMENT MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
8	U45201PB1995PTC016932	K.T.N. BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
9	U24219PB1995PTC016934	B R Y CHEMICALS PRIVATE LIMITED
10	U25199PB1995PTC016936	BEST RUBBERS PRIVATE LIMITED
11	U45201PB1995PTC016942	DHURI CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
12	U74140PB1995PTC016945	PACE MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
13	U45201PB1995PTC016948	ATAM BUILDERS PRIVATE LIMITED
14	U28939PB1995PTC016957	R M T MACHINES PRIVATE LIMITED
15	U51909PB1995PTC016962	CONCEPT IMPEX PRIVATE LIMITED
16	U33119PB1995PTC016963	KESHAV SURGICAL COTTON PRIVATE LIMITED
17	U24121PB1995PTC016969	AMRIT ORGANIC FERTILISERS PRIVATE LIMITED
18	U67120CH1995PTC016961	SUSI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
19	U67120CH1995PTC016970	GANPATI SECURITIES PRIVATE LIMITED
20	U65921PB1995PTC016974	QUANTUM FINCAP PRIVATE LIMITED
21	U17219PB1995PLC016982	VASHULINGA SYNTHETICS LIMITED
22	U23101PB1995PTC016987	MALERKOTLA AGRO FUELS PRIVATE LIMITED
23	U63040PB1995PTC016994	TRADELINK AIRFREIGHT PRIVATE LIMITED
24	U65921PB1995PTC017002	GURKUDRAT FINANCE PRIVATE LIMITED
25	U24231CH1995PTC017000	MEDIGUARD ORGANICS PRIVATE LIMITED
26	U51909PB1995PTC017024	SJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
27	U24231PB1995PTC017027	COLLINS REMEDIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
28	U22211PB1995PLC017029	MORNING POST PUBLISHING LIMITED
29	U65999PB1995PTC017038	NEELGAGAN FINANCE PRIVATE LIMITED
30	U65921PB1995PTC017045	NEW AGE HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
31	U65921PB1995PTC017046	NAVEE HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
32	U45302PB1995PTC017059	ANMOL COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
33	U45202CH1995PTC003327	BLOOM FINANCE AND CHIT FUND COMPANY PVT LTD
34	U67120PB1995PTC017075	FICUS CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
35	U67120CH1995PTC017077	JRG FINVEST PRIVATE LIMITED
36	U52311CH1995PTC017086	THAKUR EXIM COMPANY PRIVATE LIMITED
37	U55101PB1995PTC017096	SHIV FUN RESORTS PRIVATE LIMITED
38	U24241PB1995PTC017097	SIDHARTH SOAP AND DETERGENTS PRIVATE LIMITED
39	U29246CH1995PTC017100	BHEEM AUTO COMPONENTS PRIVATE LIMITED
40	U21012PB1995PTC017106	WADHAWAN CARD BOARD PRIVATE LIMITED

1	2	3
41	U27109PB1995PTC017117	ROBIN MACHINERY LINKERS PVT LTD
42	U65921CH1995PTC017123	YASHU FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
43	U65921PB1995PTC017133	BARRON FINANCE PRIVATE LIMITED
44	U99999PB1995PTC017145	DHAMIJA FINLEASE PRIVATE LIMITED
45	U27310PB1995PTC017154	SAT SAHIB CASTINGS PRIVATE LIMITED
46	U24115PB1995PTC017159	SUKHMANI RESIN AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
47	U45202PB1995PTC003347	GULNAR FINANCIERS AND CHIT FUND PVT LTD
48	U31104PB1995PTC017167	ANUBHAV TRANSFORMERS AND SWITCHES PRIVATE LIMITED
49	U01134PB1995PTC017168	NORTHERN GREEN HARVEST PRIVATE LIMITED
50	U51211PB1995PTC017169	WARAICH SEEDS PRIVATE LIMITED
51	U24111CH1995PLC017176	HARYANA GASES LIMITED
52	U51399CH1995PTC017178	DEW SANITATIONS PRIVATE LIMITED
53	U27109CH1995PTC017182	BASANT STEEL APPLIANCES PRIVATE LIMITED
54	U32109CH1995PTC017186	B.S.ELECTROMECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
55	U67120CH1995PTC017188	NAGARMAL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
56	U27203PB1995PTC017191	ANG METALS PRIVATE LIMITED
57	U51211PB1995PTC017194	KARUNA EXPORTS PRIVATE LIMITED
58	U27310PB1995PTC017204	VIVIDH CASTINGS PRIVATE LIMITED
59	U65921CH1995PTC017207	PADHANIA FINANCE PRIVATE LIMITED
60	U65921PB1995PTC017216	M M HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
61	U65921PB1995PTC017223	H R HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
62	U45201PB1995PTC017230	P.R.HOUSING AND DEVELOPERS PVT LTD
63	U51909PB1995PTC017237	R K D EXPORTERS PVT LTD
64	U23201PB1995PTC017239	H.M.TRADERS PRIVATE LIMITED
65	U22122CH1995PTC017233	INTEGRATED ADVERTISERS PRIVATE LIMITED
66	U65921PB1995PTC017243	M S FINLEASE PRIVATE LIMITED
67	U99999PB1995PTC017246	MAHANT FERTILIZERS PRIVATE LIMITED
68	U15143PB1995PTC017248	SHREE BANKAY BIHARI AGRO MILLS PRIVATE LIMITED
69	U27106PB1995PTC017242	MOHALI TOOLS PRIVATE LIMITED
70	U31200PB1995PTC017254	SUPERTECH SWITCHGEAR MARKETING PRIVATE LIMITED
71	U24231PB1995PTC017265	A M CHEMICALS PRIVATE LIMITED
72	U64201CH1995PTC017253	MCS TELECOM PRIVATE LIMITED
73	U20299PB1995PTC017270	GANDHI FURNITURES PRIVATE LIMITED
74	U65921PB1995PTC017276	SACHDEVA FINVEST PRIVATE LIMITED
75	U62210PB1995PTC017277	DALJIT BUS SERVICE PRIVATE LIMITED
76	U25202PB1995PLC017280	A.H.PRIZM PACK LIMITED
77	U17111PB1995PLC017283	J.V.G.TEXTILE AND SPINNING MILLS LIMITED
78	U18101PB1995PTC017295	FRONTIER WORLDWIDE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
79	U74140CH1995PTC017284	SIBRA EDUCATIONAL CAREER FOUNDATION PRIVATE LIMITED
80	U60210CH1995PTC017285	SIBRA TRAVELS PRIVATE LIMITED
81	U18101PB1995PTC017302	AMAN HOSIERY WORKS PRIVATE LIMITED
82	U65910PB1995PTC017305	PROGRESSIVE FINVEST PRIVATE LIMITED
83	U65921PB1995PTC017312	SEEMA FINVEST PRIVATE LIMITED
84	U21015CH1995PLC017299	RUBINA PAPERS LIMITED
85	U51909CH1995PLC017300	PARK OVERSEAS LIMITED
86	U65921CH1995PTC017319	MAKKSON INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
87	U51101PB1995PTC017326	PULSER TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
88	U17111PB1995PLC017327	LUCKY STAR SPINNERS LIMITED
89	U18101PB1995PTC017329	CITY IMPEX PRIVATE LIMITED
90	U99999PB1995PTC017331	AGRANI COTTON TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
91	U18101PB1995PTC017332	MALWA TEXTILES PRIVATE LIMITED

1	2	3
92	U74940CH1995PTC017346	BOMBAY MIX RECORDING STUDIOS PRIVATE LIMITED
93	U01122PB1995PTC017351	DHALIWAL AGRO INDIA PRIVATE LIMITED
94	U80302PB1995PTC017356	V B COMPUTER ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
95	U60210PB1995PTC017357	SITCO ROADLINES PRIVATE LIMITED
96	U45201PB1995PTC017358	JANDIALA BUILDERS PRIVATE LIMITED
97	U17115PB1995PTC017371	SNOWWHITE TEXTILES PRIVATE LIMITED
98	U99999PB1995PTC017375	BABA SRI CHAND SAHIB RICE MILLS PRIVATE LIMITED
99	U51109PB1995PTC017382	CAMELOT IMPORTS PRIVATE LIMITED
100	U27106PB1995PTC017384	DHANDARI ALLOYS PRIVATE LIMITED
101	U51101PB1995PLC017388	JAIDKA EXPORTS LIMITED
102	U67120PB1995PTC017397	C R FINVEST PRIVATE LIMITED
103	U80301CH1995PTC017394	SUKHSUR EDUCATIONAL AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
104	U65921PB1995PTC017403	NEERAJ HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
105	U65921PB1995PTC017404	PAASH HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
106	U99999PB1995PTC017405	JAHANGIRABAD HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
107	U93090PB1995PLC017409	ROYAL CONSUMER SERVICES LIMITED
108	U18101PB1995PTC017410	MEENU IMPEX PRIVATE LIMITED
109	U29294CH1995PTC017406	PUGMARKS IMPRESSIONS PRIVATE LIMITED
110	U45201PB1995PTC017414	SHIKHAR ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
111	U67120PB1995PTC017416	INDER CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
112	U24233PB1995PTC017422	ROYAL LABORATORIES PRIVATE LIMITED
113	U77120CH1995PTC017423	G P S FINLEASE PRIVATE LIMITED
114	U65921CH1995PTC017424	K S FINVEST PRIVATE LIMITED
115	U65999CH1995PTC017425	G S FINVEST PRIVATE LIMITED
116	U67120CH1995PTC017426	I G S FINLEASE PRIVATE LIMITED
117	U67120CH1995PTC017427	I S FINVEST PRIVATE LIMITED
118	U15520PB1995PTC017445	HILLSIDE DISTILLERS PRIVATE LIMITED
119	U25202CH1995PTC017442	HALFTONE IMPRESSIONS PRIVATE LIMITED
120	U51311PB1995PTC017451	AESTHETICS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
121	U29212PB1995PTC017452	TOUCHWOOD TOOLS PRIVATE LIMITED
122	U15311PB1995PTC017457	B.M.FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
123	U51420PB1995PTC017469	KALA COAL SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
124	U29246PB1995PTC017477	SAACHI TOOLS AND FORGINGS PRIVATE LIMITED
125	U65921PB1995PTC017484	ALAWALPUR DEPOSITS AND ADVANCES PRIVATE LIMITED
126	U18101CH1995PTC017481	PINEWOOD IMPEX PRIVATE LIMITED
127	U15203PB1995PTC017490	GURU AMAR DASS MILK FOODS PRIVATE LIMITED
128	U65921CH1996PTC017492	SURESH PROPERTIES PRIVATE LIMITED
129	U99999PB1996PTC017501	SAI PARKASH AGRO PRIVATE LIMITED
130	U27104PB1996PLC017511	HELLIFAX INTERNATIONAL LIMITED
131	U23201CH1996PTC017509	U.C.CARBON PRIVATE LIMITED
132	U25202PB1996PLC017525	INDO POLYFAB LIMITED
133	U65921PB1996PTC017527	T.M.SECURITIES PRIVATE LIMITED
134	U18101PB1996PTC017533	J B GARMENTS PRIVATE LIMITED
135	U65921PB1996PTC017534	CHIEF LEASING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
136	U24111PB1996PTC017538	GANESH GASES PRIVATE LIMITED
137	U36911PB1996PLC017549	SHIVALIK SONA JEWELS LIMITED
138	U67110PB1996PTC017550	HARGOBIND FINANCIAL AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
139	U17561PB1996PLC017560	RECHERCHE SPICE OILS LIMITED
140	U51909PB1996PTC017562	P.AGGARWAL TRADERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
141	U27109PB1996PTC017571	J R D MACHINES PRIVATE LIMITED
142	U21012PB1996PTC017572	PUNIA PAPERS PRIVATE LIMITED
143	U51109PB1996PTC017576	MEK MARKETING PRIVATE LIMITED
144	U65910PB1996PTC017578	ACHINT FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
145	U55101PB1996PTC017584	AARCEE FOODS PRIVATE LIMITED
146	U15204PB1996PTC017588	DEOL DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
147	U15204PB1996PTC017589	AULAKH DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
148	U51420PB1996PTC017591	D S STEEL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
149	U55101PB1996PTC017592	SHAMMI HOTEL AND RESTAURANT PRIVATE LIMITED
150	U63040CH1996PTC017586	LABH TOURS TRAVELS AND FINANCIERS PRIVATE LIMITED
151	U18101PB1996PTC017598	SAVERA TEXTILES PRIVATE LIMITED
152	U18101PB1996PTC017599	SUPER EXIM PRIVATE LIMITED
153	U51109PB1996PTC017602	JUPITER TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
154	U51109PB1996PTC017603	SHUBH LABH EXIM PRIVATE LIMITED
155	U67120PB1996PTC017605	SHUBH LABH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
156	U67120PB1996PTC017606	SAGAR CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
157	U55101PB1996PLC017611	HICKORY HOTEL AND RESORTS LIMITED
158	U18101PB1996PTC017617	OXFORD KNITWEARS PRIVATE LIMITED
159	U65921CH1996PLC017628	BADWAL FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED
160	U65921CH1996PTC017629	HSK FINANCE PRIVATE LIMITED
161	U51109PB1996PLC017635	A M EXPORTS LIMITED
162	U51221PB1996PTC017637	BHAGWATI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
163	U45201PB1996PLC017640	ALTO CONSTRUCTIONS INDIA LIMITED
164	U15311PB1996PTC017646	WEST INDIA AGRO MILLS PRIVATE LIMITED
165	U27106PB1996PLC017647	PUNNY STEELS LIMITED
166	U65922PB1996PLC017644	A M HOUSING FINANCE LIMITED
167	U65921PB1996PTC017649	SANDHU CREDITS PRIVATE LIMITED
168	U21012PB1996PTC017652	EVERGREEN PAPERS PRIVATE LIMITED
169	U45201PB1996PTC017653	SHREE TIRATH CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
170	U65921PB1996PLC017658	RISHI CAPITAL SERVICES LIMITED
171	U72200CH1996PTC017655	HORIZON COMPUTERS PRIVATE LIMITED
172	U17117PB1996PTC017662	S R D FABRICS PRIVATE LIMITED
173	U74140PB1996PTC017663	AMBIKA LIAISON AND CONSULTANCY HOUSE PVT LTD
174	U65923CH1996PTC017667	DATA MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED
175	U74140PB1996PTC017672	FIVE STAR IMMIGRATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
176	U64201PB1996PTC017673	APS COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
177	U65921PB1996PTC017686	AMRITSAR FINLEASE PRIVATE LIMITED
178	U72100PB1996PTC017692	AMRITSAR COMPUTERS PRIVATE LIMITED
179	U17115CH1996PLC017688	TOOR YARNS LIMITED
180	U21012PB1996PLC017695	M.F.BOARDS AND SECURITIES LIMITED
181	U92312CH1996PTC017693	SURABHI CASSETTES PRIVATE LIMITED
182	U74920CH1996PTC017698	JASSU EX SOLDIERS INDUSTRIAL SECURITY SERVICES PVT LTD
183	U92141PB1996PTC017701	BAINS SUPERTONE MUSIC INDIA PRIVATE LIMITED
184	U65921PB1996PLC017709	M.F.FINANCIAL SERVICES LIMITED
185	U65920PB1996PLC017721	VPM FINVEST LIMITED
186	U24139CH1996PTC017723	OSHO CONVEYORS PRIVATE LIMITED
187	U45202PB1996PTC017730	CHARISMATIC PACKAGING PRIVATE LIMITED
188	U51109PB1996PTC017738	K.J.MARKETING PRIVATE LIMITED
189	U15146CH1996PTC017731	O BOY FOODS PRIVATE LIMITED
190	U40106CH1996PTC017734	AMRIT SOLAR PRIVATE LIMITED
191	U01110CH1996PLC017736	INDUS AGRO FARMS LIMITED

1	2	3
192	U65921CH1996PTC017745	Y B FINANCE PRIVATE LIMITED
193	U65921CH1996PTC017746	A P G FINVEST PRIVATE LIMITED
194	U67120CH1996PLC017751	JKA FINANCIAL SERVICES LIMITED
195	U74300PB1996PTC017758	AKRON FINANCIAL AND MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
196	U18100PB1996PTC017771	RIPPLE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
197	U51109PB1996PTC017768	DELTA SYSTEMS ENGINEERING AND SERVICES PVT LTD
198	U65920PB1996PTC017774	PRASHANT FINCAP PRIVATE LIMITED
199	U32109PB1996PTC017776	KAY KAY CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
200	U65921PB1996PTC017779	GUFFI GROWTH FINANCE PRIVATE LIMITED
201	U65921PB1996PTC017782	SAHIBA FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
202	U18100PB1996PTC017786	YULE FASHION PRIVATE LIMITED
203	U18100PB1996PTC017795	SAHIB FIBRES PRIVATE LIMITED
204	U51490PB1996PTC017797	BOBBY BROTHERS IMPEX PRIVATE LIMITED
205	U65929PB1996PTC017798	BANDLAS FINANCE PRIVATE LIMITED
206	U65921PB1996PTC017800	BEL DEPOSITS AND ADVANCES PRIVATE LIMITED
207	U28939CH1996PTC017791	BABA EXPORTS PRIVATE LIMITED
208	U72500PB1996PTC017804	MEDULLA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
209	U67110PB1996PTC017808	GREEN LINE INVESTMENT PRIVATE LIMITED
210	U17110PB1996PTC017809	SHAH FIBRES PRIVATE LIMITED
211	U15310PB1996PTC017815	RANA KUNJ FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
212	U27100PB1996PTC017818	PREETI STEEL BALLS PRIVATE LIMITED
213	U24390CH1996PTC017810	KNIGHT ORGANICS PRIVATE LIMITED
214	U65990PB1996PTC017829	GROW QUICK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
215	U24104PB1996PTC017832	DASHMESH ALLOYS PRIVATE LIMITED
216	U67120PB1996PTC017833	RANA KUNJ FINLEASE PRIVATE LIMITED
217	U67110CH1996PTC017831	LORCAN MARKETING PRIVATE LIMITED
218	U24299CH1996PTC017835	PRIMAX CHEMICALS PRIVATE LIMITED
219	U85110PB1996PTC017841	SINGLA MEDI SERVICES PRIVATE LIMITED
220	U65920PB1996PTC017845	JAMNA BHANDARI FINANCE PRIVATE LIMITED
221	U67120PB1996PTC017849	RUPALI FINLEASE PRIVATE LIMITED
222	U67120PB1996PTC017850	JATIN FINVEST PRIVATE LIMITED
223	U72100PB1996PTC017852	ROBOT COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
224	U18101CH1996PTC017837	DIVINE GARMENTS PRIVATE LIMITED
225	U65910PB1996PTC017857	SARAL FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
226	U45202PB1996PTC017868	SUKHNA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
227	U33209CH1996PTC017867	JAGSONS TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
228	U18101PB1996PTC017874	UNIORTH SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
229	U65920PB1996PTC017882	GARCHA AND GARCHA FINANCE PRIVATE LIMITED
230	U65921PB1996PTC017883	AMAR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
231	U51909CH1996PTC017877	KHURANA IMPEX PRIVATE LIMITED
232	U27100PB1996PTC017893	ROYALSTAR FORGING PRIVATE LIMITED
233	U18101PB1996PTC017895	JAGOTA FIBRES PRIVATE LIMITED
234	U21010PB1996PLC017898	VISION PAPERS LIMITED
235	U18100PB1996PLC017903	RANA EXIM LIMITED
236	U92312CH1996PTC017901	SUR-SANGAM CASSETTES PRIVATE LIMITED
237	U65999PB1996PTC017906	SUVIDHA MEDICARE PRIVATE LIMITED
238	U65910PB1996PTC017910	ALFA FINANCE PRIVATE LIMITED
239	U24210PB1996PLC017911	G AGRO CHEMICALS LIMITED
240	U65920PB1996PTC017920	RUDRA FINVEST PRIVATE LIMITED
241	U74300PB1996PTC017923	AJANTA ADVERTISING SERVICES PRIVATE LIMITED

1	2	3
242	U65921PB1996PTC017943	YOUNGMAN LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED
243	U01122CH1996PLC017931	INTERNATIONAL HORTICULTURE DEVELOPMENT COMPANY LTD
244	U65921PB1996PTC017950	MOON FINLEASE PRIVATE LIMITED
245	U15520CH1996PLC017947	RANA MOHENDRA DISTILLERIES LIMITED
246	U65921CH1996PTC017948	SUNET FINVEST PRIVATE LIMITED
247	U65921PB1996PTC017958	PATIALA FINLEASE PRIVATE LIMITED
248	U34300CH1996PTC017972	BUBBLES CARLINE PRIVATE LIMITED
249	U55101PB1996PTC017978	NARULA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
250	U51432CH1996PLC017974	GOLDEN BUILDING MATERIALS LIMITED
251	U27310CH1996PLC017975	GOLDEN CONCAST LIMITED
252	U65921PB1996PTC017988	TEJPAL AND SONS FINANCE PRIVATE LIMITED
253	U31200PB1996PTC017980	AVID ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
254	U01134PB1996PTC017996	NATURE FOODS PRIVATE LIMITED
255	U24241PB1996PTC017999	POONAM DETERGENTS PRIVATE LIMITED
256	U65921PB1996PTC018000	ALAWALPUR PUAR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
257	U25209CH1996PLC018001	CROWN POLY FABRICKS LIMITED
258	U25209CH1996PTC018003	LUCID CHEMICALS PRIVATE LIMITED
259	U19202PB1996PTC018010	JEEVAN JYOTI LEATHERS PRIVATE LIMITED
260	U25206PB1996PTC018015	MOHALI PLASTICS PRIVATE LIMITED
261	U65921PB1996PTC018016	NIDHA FINANCE HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
262	U18101PB1996PTC018020	S P ZIPS PRIVATE LIMITED
263	U60210PB1996PTC018024	BOMBAY OVERSEAS CARGO CARRIERS PRIVATE LIMITED
264	U65921CH1996PTC018027	RAYUM INVESTMENT AND LEASING PRIVATE LIMITED
265	U67120PB1996PTC018038	DPG SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED
266	U24239PB1996PTC018042	SECUREX FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
267	U65921PB1996PTC018056	JAGIR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
268	U65910PB1996PTC018057	NEHSAN FINANCE AND LEASING COMPANY PRIVATE LIMITED
269	U29219PB1996PTC018069	AVTAR MACHINE TOOLS PRIVATE LIMITED
270	U63040CH1996PLC018051	K N B EXPORTS LIMITED
271	U65921PB1996PTC018088	I.B.FINVEST PRIVATE LIMITED
272	U01222PB1996PTC018090	BHAGWAN MAYA FEEDS AND FUELS PRIVATE LIMITED
273	U27106PB1996PTC018103	JAPRA STEELS PRIVATE LIMITED
274	U99999PB1996PTC018115	GUGNI POULTRIES PRIVATE LIMITED
275	U65921PB1996PTC018128	HARKRISHAN FINANCE PRIVATE LIMITED
276	U65921CH1996PTC018144	ZIRAKHPUR FINVEST PRIVATE LIMITED
277	U65921PB1996PTC018156	M.K.HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
278	U27130PB1996PTC018158	LAL RATTAN CASTINGS PRIVATE LIMITED
279	U67120PB1996PLC018167	ORIENTAL FINVEST LIMITED
280	U31300CH1996PTC018197	AAR BEE CABLES PRIVATE LIMITED
281	U65910CH1996PTC018199	KOHENOOR LEASING AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
282	U67120PB1996PTC018213	PARAS FINMAN PRIVATE LIMITED
283	U17111PB1996PLC018221	AMARSON WOOL COMBERS LIMITED
284	U65921PB1996PTC018229	ULTIMUM FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
285	U67120PB1996PTC018231	MPR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
286	U51109PB1996PTC018233	AEROMARINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
287	U65910PB1996PTC018257	GTB FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
288	U52398PB1996PTC018260	MONARCH SPORTING GOODS PRIVATE LIMITED
289	U65921PB1996PTC018261	R.B.J.FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
290	U55101CH1996PTC018254	VISHWA AGRO RESORTS PRIVATE LIMITED
291	U65921PB1996PTC018247	SHUBH KARMAN MOTOR FINANCE PRIVATE LIMITED
292	U63040PB1996PTC018248	DURUKHSHAAN TRAVELS PRIVATE LIMITED

1	2	3
293	U65921PB1996PTC018267	S.R.F.HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
294	U27107CH1996PTC018263	SONAM CASTING PRIVATE LIMITED
295	U17111PB1996PTC018277	SAI KNIT EXPO PRIVATE LIMITED
296	U65921PB1996PTC018282	PATIALA HOUSING AND FINCAP PRIVATE LIMITED
297	U65921PB1996PTC018287	GHASEETPURA FINANCE PRIVATE LIMITED
298	U65921PB1996PTC018293	VKS FINLEASE PRIVATE LIMITED
299	U65921PB1996PTC018296	PAWAR HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
300	U51109PB1996PTC018309	N.J.COMPUWARES PRIVATE LIMITED
301	U65921PB1996PTC018310	PRESTIGE HIRE PURCHASE AND FINANCIERS PRIVATE LIMITED
302	U67120PB1996PTC018313	AAKANKSHA LEASING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
303	U15421CH1996PTC018326	J.W. EXPORTS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
304	U65921CH1996PTC018327	GHM ADVERTISING AND LEASING PRIVATE LIMITED
305	U01134CH1996PTC018332	MANSI FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
306	U67120PB1996PTC018345	YAMUNA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
307	U21011PB1996PTC018365	BALWANT PACKAGING PRIVATE LIMITED
308	U92312CH1996PLC018366	KRISHANA TV ART CREATIONS LIMITED
309	U65921PB1996PTC018378	APURB FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
310	U65921PB1996PTC018389	SENGAR FINANCE PRIVATE LIMITED
311	U72100PB1996PTC018392	SPUTNIK COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
312	U65910PB1996PTC018395	JAGDEEP FINVEST PRIVATE LIMITED
313	U65921PB1996PTC018397	BINDRA HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
314	U17111PB1996PTC018398	MEGHA TEXTILES PRIVATE LIMITED
315	U74140CH1996PLC018399	EURO CHEM TECHNOLOGIES LIMITED
316	U67120PB1996PTC016670	SECURE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
317	U65921CH1996PTC018420	EMINENCE HOUSING AND FIDNANCE PRIVATE LIMITED
318	U02001PB1996PLC018428	KISSAN FLORITECH LIMITED
319	U64201PB1996PTC018426	ORIENTAL TELECOM PRIVATE LIMITED
320	U51222CH1996PTC018432	FAGU POULTRIES PRIVATE LIMITED
321	U15146PB1996PTC018451	PARKASH BAKERS PRIVATE LIMITED
322	U65910PB1996PTC018459	AMSONS HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
323	U29270CH1996PTC018462	MESROC SECURITY EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
324	U67190PB1996PTC018470	SARUP PROJECT AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
325	U65191PB1996PTC018472	HDH FINANCE AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
326	U55101CH1996PLC018471	ONLINE WORLDHOTELS LIMITED
327	U70101PB1996PLC018490	KALGIDHAR REAL ESTATES AND HOUSING DEVELOPMENT LIMITED
328	U52410PB1996PTC018493	LAKSHMI STRIPS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
329	U23203CH1996PLC018494	N R INTERNATIONAL PETROLEUM LIMITED
330	U65921PB1996PTC018503	HARJAS FINANCIERS PRIVATE LIMITED
331	U92312CH1996PTC018499	CROWN CASSETTES PRIVATE LIMITED
332	U01119CH1996PLC018541	ORIENTAL AGRO PLANTATION AND DRUGS INDIA LIMITED
333	U65921PB1996PTC018553	KHYATI CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
334	U65921PB1996PTC018554	PUSHPAL FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
335	U45201PB1996PTC018572	ISMA ESTATE PRIVATE LIMITED
336	U27310PB1996PLC018575	GOBIND CONCAST LIMITED
337	U31300CH1996PLC018576	EIDER CABLES INDIA LIMITED
338	U67120PB1996PTC018583	SIDHARTH FINMAN PRIVATE LIMITED
339	U65921CH1996PLC018585	ON LINE FINCAPS LIMITED
340	U65921PB1996PLC018592	JIWAN JYOTI FINVEST LIMITED
341	U65921PB1996PTC018599	BADSHAH DARVESH HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
342	U67120PB1996PTC018608	P H SECURITIES PRIVATE LIMITED

1	2	3
343	U65921PB1996PTC018610	NEELKANTH DEPOSITS AND ADVANCES PRIVATE LIMITED
344	U17116PB1996PTC018615	HARSH PROCESSORS PRIVATE LIMITED
345	U51909CH1996PTC018613	REHAL EXPORTS PRIVATE LIMITED
346	U24117PB1996PTC018623	GURUKIRPA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
347	U45201PB1996PTC018635	H D PROPERTIES PRIVATE LIMITED
348	U65921PB1996PTC018636	JOHAL BROTHER HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
349	U01122PB1996PLC018644	HIMSON AGRO PRODUCTS LIMITED
350	U51909CH1996PTC018649	SURKHAB ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
351	U70101CH1996PTC018661	KAPSUN ESTATES PRIVATE LIMITED
352	U65921PB1996PTC018674	AKARSHAK FINVEST PRIVATE LIMITED
353	U65921PB1996PTC018687	SAVERA HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
354	U01122PB1996PTC018691	JANDIALI AGRO MILLS PRIVATE LIMITED
355	U51397PB1996PTC018699	CALIX PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
356	U65921PB1996PTC018702	S. F. FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
357	U51909CH1996PTC018711	B G EXPORTS PRIVATE LIMITED
358	U65921CH1996PTC018718	BBS LEASING AND DEPOSITS PRIVATE LIMITED
359	U65921PB1996PTC018739	LEAD HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
360	U65921PB1996PTC018740	KHASEIRIA HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED
361	U70101PB1996PTC018743	ANANDPUR SAHIB ESTATES AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
362	U70101PB1996PTC018744	LEAD BUILDERS PRIVATE LIMITED
363	U45201CH1996PTC018749	CHANDIGARH BUILDICON PRIVATE LIMITED
364	U45201CH1996PTC018750	ZAMIDARA BUILDERS AND PROMOTORS PRIVATE LIMITED
365	U67120PB1996PTC018751	MANGLA FINCAP PRIVATE LIMITED
366	U55101PB1996PTC018753	ROYAL REGENCY HOTELS PRIVATE LIMITED
367	U63023PB1996PTC018759	LONGOWAL COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
368	U74910CH1996PTC018764	A.I.EMPLOYMENT PROMOTORS PRIVATE LIMITED
369	U63040PB1996PTC018768	ZENISH EXPORTS PRIVATE LIMITED
370	U23201PB1996PTC018773	GREWAL PETROLEUMS PRIVATE LIMITED
371	U51909PB1996PTC018775	LUXMI TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
372	U80303PB1996PTC018804	DISA MARKETING PRIVATE LIMITED
373	U45201PB1996PTC018790	HARGURRAJ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
374	U45201PB1996PTC018797	JITYA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
375	U70101PB1996PTC018798	JAGAD PROPERTY PRIVATE LIMITED
376	U65921PB1996PTC018799	IRYA FINCAP PRIVATE LIMITED
377	U70101PB1996PTC018800	JAITRA PROPERTY PRIVATE LIMITED
378	U45201PB1996PTC018801	JAIGAJA ESTATE PRIVATE LIMITED
379	U45201PB1996PTC018803	JIYA PROPERTY PRIVATE LIMITED
380	U45201PB1996PTC018805	DISTI ESTATE PRIVATE LIMITED
381	U65921PB1996PTC018807	GANDHA FINCAP PRIVATE LIMITED
382	U65921PB1996PTC018796	JALA FINCAP PRIVATE LIMITED
383	U31909CH1996PTC018811	GURU NANAK WIRE AND WELD PRIVATE LIMITED
384	U65921PB1996PTC018823	BTL FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
385	U17221PB1996PTC018855	MONK SEAL IMPEX PRIVATE LIMITED
386	U15311PB1996PTC018882	S J S RICE IMPEX PRIVATE LIMITED
387	U52322PB1996PTC018884	HARMAN FASHIONERS PRIVATE LIMITED
388	U51299PB1996PTC018889	IMPACT FOODS PRIVATE LIMITED
389	U72200CH1996PTC018887	MASTERS INFORMATION SOLUTION PRIVATE LIMITED
390	U74140CH1996PTC018896	G AND G MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
391	U01135PB1996PTC018909	JAGRAL AGRICULTURE FARMING PRIVATE LIMITED
392	U45309PB1996PTC018917	KALPA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
393	U45203PB1996PTC018918	LOKA ESTATE PRIVATE LIMITED

1	2	3
394	U17125PB1996PTC018919	GOMAN MARKETING PRIVATE LIMITED
395	U45203PB1996PTC018920	DARVI ESTATE PRIVATE LIMITED
396	U45203PB1996PTC018921	HARSA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
397	U45203PB1996PTC018922	KANYA PROPERTY PRIVATE LIMITED
398	U45203PB1996PTC018923	DAMA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
399	U67120PB1996PTC018925	EILA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
400	U67120PB1996PTC018927	INAN FINCAP PRIVATE LIMITED
401	U45203PB1996PTC018928	KANSA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
402	U45203PB1996PTC018929	DAMYA PROPERTY PRIVATE LIMITED
403	U45203PB1996PTC018930	KAPI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
404	U52322PB1996PTC018931	DAYA IMPEX PRIVATE LIMITED
405	U45203PB1996PTC018932	HARA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
406	U67120PB1996PTC018933	KABERI FINANCE PRIVATE LIMITED
407	U45203PB1996PTC018934	EKALA ESTATE PRIVATE LIMITED
408	U45203PB1996PTC018935	MAHI ESTATE PRIVATE LIMITED
409	U45203PB1996PTC018936	GAJA BUILDERS PRIVATE LIMITED
410	U67120PB1996PTC018939	GUNJAN FINCAP PRIVATE LIMITED
411	U45203PB1996PTC018940	KAMA ESTATE PRIVATE LIMITED
412	U72900PB2002PTC025328	POINT WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
413	U67120PB1996PTC018942	ENA FINCAP PRIVATE LIMITED
414	U70100CH2006PTC029640	HIMSHIKHA DEVELOPERS PVT LTD
415	U52322PB1996PTC018944	MAHADEV MARKETING PRIVATE LIMITED
416	U65921PB1996PTC018945	UJJALA FINLEASE PRIVATE LIMITED
417	U45203PB1996PTC018946	SUNSET CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s JYOTI SWAROOP COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED, U22110GA1990PTC001079

Panaji-403001, the 16th April 2014

This is with respect to your application (Form FTE) dated 28/02/2014 vide SRN B97360911.

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of JYOTI SWAROOP COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s BADHRIYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, U45201GA2004PTC003755

Panaji-403001, the 16th April 2014

This is with respect to your application (Form FTE) dated 16/09/2013 vide SRN B84530526.

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s BADHRIYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s DELMAR WATER SPORTS PRIVATE LIMITED, U92410GA2011PTC006568

Panaji-403001, the 17th April 2014

This is with respect to your application (Form FTE) dated 25/02/2014 vide SRN B97005250.

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s DELMAR WATER SPORTS PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s SALELKAR REAL ESTATES PRIVATE LIMITED, U70100GA2012PTC007002

Panaji-403001, the 17th April 2014

This is with respect to your application (Form FTE) dated 10/02/2014 vide SRN B95784583.

Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s SALELKAR REAL ESTATES PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 15TH APRIL 2014

NO. ROC/560/(5) FTE---NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF UNDER MENTIONED COMPANIES FROM SERIAL NUMBER 1 TO 56 HAVE BEEN STRUCK OFF THE REGISTER AND THE SAID THE COMPANIES STAND DISSOLVED:--

Sl.No	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U60200KA1997PTC021591	TANWAR ROADLINES PRIVATE LIMITED
2	U52100KA2011PTC058767	RIGHT SHOPPERS MARKETING PRIVATE LIMITED
3	U55101KA2008PTC046030	RESURGENT HOSPITALITY INDIA PRIVATE LIMITED
4	U72200KA1999PTC026009	I B S (INDIA) PRIVATE LIMITED

1	2	3
5	U92130KA2009PLC049620	RAYS INDIA COMMUNICATIONS LIMITED
6	U74140KA2004PTC035297	BIG APPLE OCCUPATIONAL SAFETY PRIVATE LIMITED
7	U72200KA2012PTC064475	APROKSHA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	U28939KA1983PTC005691	ALPHA DIE-CAST PRIVATE LIMITED
9	U74999KA2012PTC066633	AUCTIFER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
10	U74999KA2008PTC047025	FOU HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
11	U51909KA2008PTC045410	PEACOCK RETAIL AND WHOLESALE TRADING PRIVATE LIMITED
12	U29297KA2001PTC028745	PHARMACON (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	U74990KA2011PTC057456	OPHRYS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
14	U29253KA2010PTC056427	SAVNA ENGG & MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
15	U85110KA2012PTC065322	VIRICH HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
16	U29222KA1981PTC004412	JAYBEE ELECTRODES AND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
17	U63040KA2007PTC044019	NUANZ TOURS & TRAVELS BANGALORE PRIVATE LIMITED
18	U85110KA2011PTC057517	ORANGE PLUS HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
19	U74140KA2010PTC054407	RE3 CUBE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U18101KA2003PTC031807	APPAREL SPECIALITIES AND PRODUCTION PRIVATE LIMITED
21	U74900KA2010PTC052407	TIMELINK WORKFORCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
22	U45205KA2011PTC059430	MAGNUM CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
23	U72200KA2007PTC041570	ADAPTIK SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
24	U63031KA2012PTC062818	YUVARAJ HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
25	U51900KA2010PTC054187	SAMZU IMPEX PRIVATE LIMITED
26	U93090KA2006PTC039745	RYZOHM SERVICES PRIVATE LIMITED
27	U74140KA2006PTC040422	GYANNET CONSULTING PRIVATE LIMITED
28	U72400KA2011PTC058159	VIRTUAL DESIGN VERIFICATION LABS PRIVATE LIMITED
29	U74130KA2008PTC045712	ONTOMATICS ANALYTIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U15423KA1997PTC022779	T.G. UTILITIES AND SERVICES MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LTD
31	U70101KA1997PTC022773	T.G.SERVICED APARTMENTS PRIVATE LIMITED
32	U63023KA1997PTC022781	T.G. PROFESSIONAL AND BUSINESS CENTRE PRIVATE LIMITED
33	U40103KA1997PTC022782	T.G. POWER GENERATION PRIVATE LIMITED
34	U80101KA1997PTC022774	T.G. INTERNATIONAL SCHOOL PRIVATE LIMITED
35	U55101KA1997PTC022784	T G INTERNATIONAL COUNTRY CLUB PRIVATE LIMITED
36	U45202KA1997PTC022783	T.G. CORPORATE OFFICE COMPLEX PRIVATE LIMITED
37	U70101KA1997PTC022780	T.G.COMMERCIAL TOWN CENTRE PRIVATE LIMITED
38	U01400KA1997PTC022777	ANNADANA SAFE FARMING SERVICES PRIVATE LIMITED
39	U72900KA2012PLC063854	CITAGUS INFORMATION SYSTEMS LIMITED

1	2	3
40	U17291KA2006PTC039937	UNITECH-INDIA APPAREL PRIVATE LIMITED
41	U05190KA1989PTC009780	CLIFTON GARMENTS PRIVATE LIMITED
42	U74900KA2009PTC049176	QUALEX QUALITY CONTROL SERVICES PRIVATE LIMITED
43	U72100KA2008PTC045925	INFLOW KNOWLEDGE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
44	U63040KA2007PTC043819	TRIPROYALE.COM (INDIA) PRIVATE LIMITED
45	U60232KA2010PTC056408	SRI KRC ROADWAYS PRIVATE LIMITED
46	U74990KA2009PTC050352	HANUMANTHANAGAR CABLE NETWORK PRIVATE LIMITED
47	U72200KA2011PTC059027	CLASSACT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
48	U52590KA2012PTC064234	INNOVATIVE EXPERIENCES PRIVATE LIMITED
49	U24100KA2010PTC052997	NOVASANG LABORATORIES PRIVATE LIMITED
50	U45202KA2005PTC037135	WILD LAND SERVICES PRIVATE LIMITED
51	U74140KA1998PTC023416	TUSCAN ENGINEERING CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
52	U92410KA2011PTC058504	LANDMARK FITNESS PRIVATE LIMITED
53	U72900KA2000PTC026186	CYMFONY NET PRIVATE LIMITED
54	U29200KA2009PTC050270	OTTO HOFSTETTER MOULDS PRIVATE LIMITED
55	U51900KA2011PTC056696	UNITED GLOBAL MINING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
56	U40107KA2010PTC053614	PRAGATHI HYDRO ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

SATYAJIT ROUL
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in